

जान से मारने के नियत फायर करने वाले अभियुक्तगण गिरफ्तार एवं उनके कब्जे से एक अदद देशी पिस्टल, एक अदद खोखा कारतूस व 06 अदद जिन्दा कारतूस बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद गोरखपुर द्वारा वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिये चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी कैण्ट के कुशल मार्ग दर्शन में व प्रभारी निरीक्षक जगत नारायन सिंह के नेतृत्व में थाना रामगढताल पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 348/2021 धारा 147/323/504/506/307 भादवि0 के अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु उ0नि0 श्री राजेश कुमार सिंह मय पुलिस टीम को लगाया गया था। आज दिनांक 31.08.2021 को मुखबिर खास की सूचना पर कि आपके मुकदमें से संबंधित अभियुक्तगण हनुमान मन्दिर तिराहा पे खड़े है। इस सूचना पर विश्वास कर मौके पर उ0नि0 श्री राजेश कुमार सिंह मय पुलिस टीम के पहुँचकर अभियुक्तगण को घेर घार कर पकड़ लिया गया जिनकी जामा तालाशी लेते हुए नाम पता पूछा गया तो पहले ने अपना नाम दुर्गेश निषाद पुत्र गंगा सागर निवासी ग्राम रामपुर थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर उम्र करीब 21 वर्ष एवं दूसरे ने अपना नाम आकाश साहनी पुत्र राम आशीष साहनी निवासी ग्राम सुरहिया टोला थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर उम्र करीब 20 वर्ष बताया जिनके कब्जे से एक अदद देशी पिस्टल 32 बोर व एक अदद खोखा कारतूस व 06 अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर बरामद किया गया। पकड़े गये अभियुक्तगणों को उनके जुर्म से अवगत कराते हुए आज दिनांक 31.08.2021 को समय 06.10 बजे गिरफ्तार किया गया जिसके संबंध में अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### **गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता**

1. दुर्गेश निषाद पुत्र गंगा सागर निवासी ग्राम रामपुर थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर उम्र करीब 21 वर्ष ।
2. आकाश साहनी पुत्र राम आशीष साहनी निवासी ग्राम सुरहिया टोला थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर उम्र करीब 20 वर्ष ।

### **अपराधिक इतिहास**

#### **दुर्गेश निषाद पुत्र गंगा सागर निवासी ग्राम रामपुर थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर का अपराधिक इतिहास-**

1. मु0अ0सं0- 348/2021 धारा 147/323/504/506/307 भादवि, थाना रामगढताल, जनपद गोरखपुर ।
2. मु0अ0सं0- 350/21 धारा 3/25/27(1) आर्म्स एक्ट, थाना रामगढताल, जनपद गोरखपुर।

#### **आकाश साहनी पुत्र राम आशीष साहनी निवासी ग्राम सुरहिया टोला थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर का अपराधिक इतिहास-**

1. मु0अ0सं0- 348/2021 धारा 147/323/504/506/307 भादवि, थाना रामगढताल, जनपद गोरखपुर ।
2. मु0अ0सं0- 351/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना रामगढताल, जनपद गोरखपुर।
3. मु0अ0सं0- 974/2020 धारा 147/323/504 भादवि, थाना रामगढताल, जनपद गोरखपुर

### **बरामदगी का विवरण**

1. एक अदद देशी पिस्टल 32 बोर व एक अदद खोखा कारतूस व 06 अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर

### **गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम**

1. प्र0नि0 श्री जगत नारायन सिंह, थाना रामगढताल, जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 राजेश कुमार सिंह, थाना रामगढताल, जनपद गोरखपुर
3. हे0का0 ओम प्रकाश सिंह, थाना रामगढताल, जनपद गोरखपुर
4. हे0का0 लक्ष्मण सिंह, थाना रामगढताल, जनपद गोरखपुर
5. का0 देवानन्द , थाना रामगढताल, जनपद गोरखपुर